

CIN - L29130HR1986PLC081555

Corporate Office: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-1, Sector-27, Gurugram - 122009, Haryana, INDIA Tel.: +91-(124) 4715100

July 29, 2022

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
"Exchange Plaza", C-1, Block – G
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
NSE Stock code – HITECHGEAR

The Manager,
Listing Department,
BSE Limited,
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
BSE Stock code - 522073

Sub: <u>Intimation regarding Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and</u>
Protection Fund Authority (IEPF) Account.

Dear Sir/Madam.

Pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and applicable regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015 please find enclosed herewith an intimation in the form of Public Notice to the identified shareholder whose equity shares are qualified for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority account as required, published in the following newspapers:-

Business Standard (National Daily Newspaper in English)

- July 29, 2022

 Business Standard, New Delhi NCT of Delhi and Haryana (Regional Daily Newspaper in Hindi) - July 29, 2022

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking You Yours faithfully.

For The Hi-Tech Gears Limited

Gurugram

Naveer Jain O

Membership No:-A1523

www.thehitechgears.com

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH V, NEW DELHI COMPANY PETITION (CAA) NO. 40/ND/2022 CONNECTED WITH
COMPANY APPLICATION (CAA) NO. 5/230/232/ND/2022 In the matter of the Companies Act, 2013;
And
In the matter of Sections 230 to 232 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013;
And
In the matter of Scheme of Arrangement of PureSoftware Private Limited and PureSoftware Technologies Private Limited and their respective shareholders and creditors;
PureSoftware Private Limited,
(CIN No.: U72200DL2005PTC134669)
A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and having its registered office at Suite 523, DLF Tower B, Plot No. 11, Jasola, New Delhi-110025
.......Petitioner Company-1/Demerged Company

...Petitioner Company-1/Demerged Compa ......Petitioner Company-1/Demerged Co PureSoftware Technologies Private Limited, (CIN No.: U72900DL2021PTC388597)

(CIN No.: 07/29/00/L2021PT/20360391)
A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013
and having its registered office at Suite 523, DLF Tower B, Plot No. 11,
Jasola, New Delhi-110025.
......Petitioner Company-2/Resulting Company

NOTICE OF PETITION

A petition under section 230 to 232 of the Companies Act, 2013, for sanction of Scheme of Arrangement was jointly presented by PureSoftware Private Limited and PureSoftware Technologies Private Limited on the 21<sup>st</sup> day of December, 2021 and the said petition is fixed for hearing before the New Delhi bench of National Company Law Tribunal on the 15<sup>st</sup> day of September, 2022.

15" day of September, 2022.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioners' advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioners' advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Dated this: 27.07.2022 Green Boulevard, Plot No. B9-A, Tower B, Third Floo Sector 62, Noida, Uttar Pradesh-201301

For any queries you may reach out at compliance.pspl@puresoftware.con

In The Court of Hon'ble District Judge 1th (Hon'ble Smt. Deo at Aurangabad. 8 Member of M. A. C. T. at Aurangabad M.A.C. P. No. 556/2019 Exh-No

(Oriver of Truck No. UK-04-CA-9589.)
Whereas, the above named applicant / Claimant Sonubai w/o Jagdish Gaikwad & other claimants, had filled an application before this court, through Advocate Sunil K. Hiwale, vide case M.A.C.P. No-556/2019. Under section 166 of Motor Vehicle Act 1988, for grant of Compensation of Rs. 12,00,000/-Notice of this claim petition is issued to Not many times and same not been served.

you many times and same not been serve

pon you, notice is return unnerved to thi

before this court in person or by a pleade duly instructed **within 30 days**, after date of publishing this public notice in daily

news paper, to show cause against said

application, failing which said application will be heard and determined Ex-parte.

this 21st day of July 2022

Given under my hand & seal of the cour

// Superintendent (Jud. Civil)
District & Session Court

Aurangabad

You are hereby warned to appear

RESPONDENT:

Sh. Suraj Mal Asaru Khan and others

d Rashid s/o Asaru Khan. Ag 29 years, Occ -Driver, R/o - Kanchanne The-Pahari, District Bharatpur. Rajastha PIN 321023. Mob-7690937518. (Driver of Truck No. UK-04-CA-9589.)

having facilities of Ind Mortgage Loans (A/c Nos.- 6532265540 & 6560250120 ), with Indian Bank Moti Doongri Road Branch. In which NPA dates were mentioned as 29.09.2020 & 29.10.2020 for both loan accounts respectively As per RBI guidelines relating to asset classification, the above mentioned accounts classified as NPA on 29.10.2020. In the Possession Notice issued on 30.07.2021 Demand Notice Date was inadvertently mentioned as 23.04.2021 instead o 7.04.2021. It should be considered as 27.04.2021. Authorized Officer, Indian Bank

दलबैंक 🔊 Indian Bank Zonal Office: Jaipur SF-50, 2nd Floor, JTM, Near Jagatpura Flyove

CORRIGENDUM

This has reference to Demand Notice U/S 13 (2) of the SARFAESI Act issued or 27.04.2021 to the secured NPA borrowers- 1. Smt. Renu Agrawal W/O Sh. Ashok

Agrawal , 2. Sh. Ashish Agarwal S/o Sh. Ashok Agarwal,3. Šh. Ashok Agarwal S/o

0141 2974317, Fmail - zo

lodel Town, Malviva Nagar, Jaipur (Raiasthan)- 302001, Phone No

**U.P. BEEJ VIKAS NIGAN** hone No. : 0522-2335356, 7570906024

E-TENDER NOTICE NO. 2022 DO SUTI CLOTH BAGS 02, 05 KG. CAPACITY der documents will be available from 29.07.2022 and can wnloaded from the website http://etender.up.nic.in. Cost ender form is (Rs. 236/- incl. GST) EMD must accompany each ender in shape of Bank drafts in favour of "U.P. Beej Vikas ligam", payable at Lucknow. Managing Director reserves th right to accept or reject any or all Tenders in part or full, without assigning any reason whatsoever. Incharge (Store & Purchase)

# INDRAPRASTHA SEHKARI BANK LTD. REGD. OFFICE: A-101, Wazirpur Group Industrial Area, Delhi, 110052

LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS ON/ BEFORE 26.08.2022, upto 4.00 PM E- Auction Sale notice for sale of immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(2) & Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the Public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below immovable property/ ies mortgaged to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indraprastha Sehkari bank Ltd., A-101, Wazirpur Group Industrial Area, Delhi 110052 Secured Creditor, will be sold on "As is where is, "As is what is", and "Whatever there is basis" on 29.08.2022, for recovery of bank dues as per below mentioned details.

	DESCRIPTION OF IMMOVABLE / MOVABLE PROPERTIES									
S. NO	Name of the Branch & Account	Details of property & Name of the owner of the property		Reserve Price EMD Bid Increase Amt.	Date & Time of Inspection	Date / Time of e-Auction				
	Snakarpur, Deini- 110092 M/s.Gramtech (India) Pvt. Ltd. Directors: Sh. Rakesh Gupta Sh. Abhishek	19, VI <sup>th</sup> Floor , The East End Apartment, Mayur Vihar Phase-I, Extension, Delhi 110096 Sh. Rakesh Gupta	Rs.3,09,57,544.15 upto 02.08.2021 and further iterest and other Expenses thereon until the payment in full.  Demand Notice date 05.08.2021	2)Rs.2,26,00,000/-	03.08.2022 to 04.08.2022 During office hours with prior appointment	29.08.2022 at 11.00 am. To 12.00 pm.				

The EMD is to be deposited through Demand Draft / RTGS / NEFT to A/c No. 020300458501 (name of the Account INDRAPRASTHA SEHKARI BANK LTD. E AUCTION ACCOUNT) IFSC No.UTIB0SIPSB1 (Fifth character is 'Zero' in IFSC). For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in Web Portal: https://www.bankeauctions.com and contact Sh. Raj Kishan Gupta, Assistant Manager, Recover Department, Indraprastha Sehkari Bank Ltd. A-101, Wazirpur Group Industrial Area, Delhi, 110052

Contact No. 011- 45079436, E-Mail id : rajkishan.gupta@jpbankonline.com Authorized Office

Date: 29.07.2022 Place: Delhi Indraprastha Sehkari Bank Ltd.

Branch Office: 3rd Floor, Above Canara Bank, Near IDBI Bank, Ajmer Road, Madanganj Kishangarh Ajmer – 305801, Branch Office: Shop No.67B & 68, First & Second Floor, P.No.-277, (East), Tagor Nagar, Next To DCM, Ajmer Road Jaipur, Rajasthan -302021,

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002. NOTICE is hereby given that the following borrower's who have availed loan from India Shelter Finance Corporation Ltd. (ISFCL) have failed to pay Equated Monthly Installments (EMIs) of their Loan to ISFCL and that their Loan Account has been classified as Non-

erforming Asset as per the guidelines issued by National Housing Bank. The borrower(s) have provided security of the immovable properti

o ISFCL, the details of which are described herein below. The details of the Loan and the amounts outstanding and payable by the borrower/ to ISFCL as on date are also indicated here below. The borrower(s) as well as the public in general are hereby informed that the undersigned

being the Authorised Officer of ISFCL, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provision of the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of security Interest Act 2002 and issued notice under this Act details

pentioned below. If the following borrower(s) fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60(Sixty) days of the tice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the secured Creditor under sub-section (4) of the section-13

of the SARFAESI Act, including the power to take the possession and sell the same. The public in general is advised not to deal with propertie

**Demand Notice Date** 

and Amount

Tepresentative, Lorin Eccount 10.0.

I. Demand Notice Date 13-06-2022 2. Rs. 7929811.12/- (Rupees Seventy Nine Lakh Twenty Nine Thousand Eight Hundred Eleven Paise CHAND SAINI RESIDE AT: 55 & 56 Vijay Nagar Kiner Nousand Eight Hundred Eleven Paise Nine Thousand Eight Hundred Eleven Paise Nous Admeasuring 508.7 Square Yards. BOUNDARY-North-Plot No-54, 53, South Others Land, East-Public Road, West — Plot No-66-65-64

**DEMAND NOTICE** 

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD

Circle Sastra Jaipur Sikar, PNB House, 2nd Floor, Pup Circle Office Jaipur Sikar, 2 Nehru Place, Jaipur (302015) Email: cs8246@pnb.co.in SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement

Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the symbolic/ constructive/physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herei below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and th earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Lo	Hullio & Addicosco	Description of the Immovable Property Mortgaged/ Owner's Name (Mortgagors of Property(ies))	Notice u/s 13(2) of SARFAESI ACT 2002 (B) Outstanding Amount C) Possession Date u/s 13(4) of	A) Reserve Price (Rs. In Lakhs) B) EMD (Last date of deposite of EMD) C) Date/ Time of Inspection D) Bid Increse Amount	Date/ Time of E-Auction	Details of the encumbrances known to the secured creditors
1		All that part and parcel of the	D) Nature of Possession	A) Rs. 11,59,000/-	09/09/22	Not Known
		7 & B measuring 23.62 sq.yd. situated at Ward No.14 (old) 15(New), Shop at first floor and construction thereon, Shop No. 7 & 8 Durga	Symbolic/Physical/ Constructive  (A) 27/10/2021  Ost. Amt Rs. 12,00,675.62 as on 27-10-2021  B) 13/07/2022  C) Physical Possession	B) 1,15,900/- (08/09/2022) C) 07/09/2022 upto 04:00 PM D) Rs.5000/-	From 11.00 AM to 04.00 PM	

IERMS AND CONDITIONS:- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and o the following further conditions: 1. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the inform Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation, 3. The Sale wil be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com on above mentioned date & ime in table. **4.** For detailed term and conditions of the sale, please refer <u>https://www.ibapi.in</u> , <u>www.pnbindia.in</u> **Authorized Office** Date: 28/07/2022 Secured Creditor, Punjab National Banl STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

SHRIRMM HOUSING FINANCE

### **SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED**

DEMAND NOTICE

Registered Office: Office No.123, Angappa Naicken Street, Chennai-600 001 Branch Office: Plot No. 245 & 246, 2nd Floor, Omkaram Tower, Hanumnan Nagar – D, Amarpali Marg Vaishali Nagar, Jaipur Rajasthan – 302021 Website: www.shriramhousing.in

Whereas the borrowers/co-borrowers/guarantors/ mentioned hereunder had availed the financial assistance from SHRIRAM HOUSING FINANCE. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/guarantors have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset in accordance with the directives/guidelines issued by Reserve Bank of India, consequent to the Authorized Officer of SHRIRAM HOUSING FINANCE. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of ARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers /guarantors /mortgagors to repay the amount notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses cost, charges etc until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices.

The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Name of the Borrower (S) Co-Borrower(S)	Outstanding Amount	Loan no. & Loan Amount	Property Address of Secured Assets		
Mr. Abhimanyu Singh Shekhawat s/o	Rs.1,94,46,564/	LOAN A/C NO.	All that piece or parcel of lease		
Late. Shailab Singh	- (Rupees One	SHLHJIPR0000424	hold property situated at Plot		
Mrs. Viveka w/o Mr. Abhimanyu Singh	Crore Ninety	Rs. Rs.22,214,860/-	No. 4, Vishal Nagar, Near		
Shekhawat	Four Lacs Forty	(Rupees Two Crore	Nemi Nagar Vistar, Vaishali		
Mr. Gajendra Singh s/o Late. Shailab	Six Thousand	Twenty Two Lacs	Nagar, Jaipur Rajasthan in the		
Singh	Five Hundred	Forteen Thousand	name of Mr. Abhimanyu Singh		
M/S Abhimanyu Garden And Restaurant	Sixty Four Only)	Eight Hundred Sixty	Shekhawat s/o Late. Shailab		
19, Sahakar Nagar, Satye Nagar Road,	as on	Only)	Singh. Admeasuring:- 574.0		
Jhotwara, Jaipur-Rajastha_302012	18.07.2022	And	Sq. Yard.		
ALSO AT-		STUHJIPR0001682	Surroundings: North-Nami		
Plot No. 1 Vishal Nagar, Near Nemi		Rs.1,215,941/- (Rupees Twelve Lacs	Nagar Ext., South-Other		
Nagar Extn. Vaishali Nagar,Jaipur-		Fifteen Thousand	Scheme, East-Other Land,		
Rajasthan_302021.		Nine Hundred Forty	West- Plot No.3 and Road		
<b>NPA DATE</b> - 06-07-2022		One Only)			
DATE OF DEMAND NOTICE: 21.07.2022		,,			
Mrs. Damyanti Devi Sharma w/o Pooran	Rs.1231461/-	SHLHJIPR0000038	All that piece or parcel of lease		
Mal Sharma	(Rupees Twelve	Rs.14,110,17/-	hold property situated at Plot		
Mr. Rakesh Sharma s/o Pooran Mal	Lac Thirty One	(Rupees Fourteen	No.16-A, South part of Plot		
Sharma	Thousand Four	Lacs Eleven	No16, Kailash Sarover		
Mr. Rohit Kumar Sharma s/o Vijay	Hundred Sixty	Thousand Seventeen	Ganpatpura, Tehsil-Sanganer,		
Kumar Sharma	One Only) as on	Only)	Jaipur-Rajasthan_302020 in the name of Mrs. Damyanti		
Plot No.613, Mahaveer Nagar, Tonk	18.07.2022		Devi Sharma w/o Pooran Mal		
Road, Jaipur-Rajasthan_302018			Sharma and Mr. Rakesh		
Also At:-			Sharma s/o Pooran Mal		
Plot No. 104/82 Shanti Path, Vijay Path			Sharma. Admeasuring:-		
Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur-			91.84 Sq. Yard.		
Rajastha_302020			Surroundings: North-Part Of		
<b>NPA DATE</b> - 06-07-2022			Plot No16, South-40ft		
NFA DATE - U0-U7-ZUZZ			Road, East-Other Plot, West-		

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers and/ or their guarantors (where ever applicable) to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules there under.

DATE OF DEMAND NOTICE: 21.07.2022

Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise

any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor. Place: Rajasthan Sd/- Authorised Officer Shriram Housing Finance Ltd Date: 29/07/2022

Hinglaaj Nagar Lairpura GandhipathJaipur 302021 Rajasthan Also At; House No-71, Ganesh Vihar, Kanakpura, Sirsi Road Jaipur 302021 Rajasthan LOAN ACCOUNT NO. HL30MILONS000005008125

MR./ MRS. MONIKA KANWAR &MR./ MRS. BHEEM SINGH RESIDE AT:P No 256 Maa

Name of the Borrower(s)

/ Guarantor/legal heir/legal

representative, Loan account no.

IndiaShelter

Regd: Off:-6th Floor, Plot-15, Sector-44, Institutional Area, Gurgaon, Haryana-122002

1. Demand Notice Date 20-06-2022 2. Rs. All the Piece and Parcel of the Land plot 1892/790.76/- (Rupees Eighteen Lakh Ninety Two No.4, Scheme Shri Om vatika-18, Sirsi Road Sirsi Thousand Seven Hundred Ninety Paise Seventy Six Only) due as on 16.06.2022 together with 36Feet Road Wide, West-Other Land, North - Plot Interest from 17.06.2022 and other charges and ost till the date of the payment MR./ MRS. BARKHA JAHGID & MR./ MRS. 1. Demand Notice Date 20-06-2022 2. Rs.Rs. All the Part Piece And Parcel Of The Plot No. A-51 RAKESH KUMAR JAHGIDRESIDE AT;80-A Ranij 1155990.31/- (Rupees Eleven Lakh Fifty Five Situated At Scheme Shree Govind Nagar- 11,

ColonyDarbar School Ke Pass Niwaru Road Thousand Nine Hundred Ninety Paise Thirty One Niwaru Road, Jhotwara District Jaipur Jhotwara Jaipur Jaipur 302012 Rajasthan ALSO | Onlydue as on 16.06.2022, together with Admeasuring 50 Square Yards Boundary : AT,Plot No. A-51 Situated At Scheme Shree interest from 17.06.2022 and other charges and Onlydue as on 16.06.2022 of the payment.

Admeasuring 50 Square Yards Boundary : Admeasuring 50 Square Yards Bounda Jaipur, Jaipur 302012 Rajasthan LOAN ACCOUNT West-Plot No. A-61 NO. CHL100001199 MR./MRS. CHAHDA DEVI,MR./ MRS. RAM | 1.Demand Notice Date 20-06-2022 2.Rs. Rs. | All the Part Piece And Parcel Of The Land LAL,MR, MRS. SONU KUMAWAT, & MR./
MRS. MAHENDRA KUMAWAT RESIDE AT:

Thousand Six Hundred Twenty Two Paise Fifty Gram Thanwala, Gram Panchayat Thanwala Mawaro Ka Bas Bhawaro Ka Bas Thanwla Riyabadi Degana Nagaur 305026 Rajasthan interest from 17.06.2022 and other charges Admeasuring Area 272.22 Sq Yards

Village— Thawala Tehsil-Riyabadi, Distt. Nagaur-305026 Rajasthan LOAN ACCOUN NO. LA30CLLONS000005008638 Place: Raiasthan Date: 29.07.2022

Also At;H No.668, Shiv Chouraha Thawala and cost till the date of the payment.

SiX Only) due as on 16.06.2022, together with Panchayat Samiti Riyabadi, Distt. Nagau BOUNDARY:- East - Bhevji Butiwal, West

Authorised Officer(India Shelter Finance Corporation Ltd

Description of secured Asset(s)

(immovable properties)

# SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

CIN: L24219DL2006PLC145092

Registered & Corporate Office: G-82, Kirti Nagar, New Delhi-110015, Tel: +91-11-42083083 Website: https://sircapaints.com/ Email: cs@sircapaints.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>™</sup> JUNE, 2022 (Figures in Lacs expect EPS)

Sr.	PARTICULARS STANDALONE					
No.			Quarter Ende	d	Year Ended	
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
1.	Total Income from Operations	6,256.50	5,491.81	3,302.73	20,442.64	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	1,541.79	906.31	297.79	3,795.41	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,541.79	906.31	297.79	3,795.41	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,167.49	618.68	221.34	2,772.72	
5.	Total Comprehensive Income for the period	1,167.49	639.21	221.34	2,793.26	
6.	Equity Share Capital	2,740.44	2,740.44	2,740.44	2,740.44	
7.	Other Equity	20,942.24	19,774.75	17,640.71	19,774.75	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
	1. Basic: (not annualised)	4.26	2.26	0.81	10.12	
	2. Diluted: (not annualised)	4.26	2.26	0.81	10.12	

	2. Diluted: (not annualised)	4.26	2.26	0.81	10.12					
	(Figures in Lacs expect EPS)									
Sr.	PARTICULARS	CONSOLIDATED								
No.		(	Quarter Ended							
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022					
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)					
1.	Total Income from Operations	6,256.50	5,491.81	3,302.73	20,442.64					
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	1,541.66	906.01	297.78	3,794.88					
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,541.66	906.01	297.78	3,794.88					
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	1,167.39	618.45	221.33	2772.33					
5.	Total Comprehensive Income for the period	1,167.39	638.99	221.33	2,792.87					
6.	Equity Share Capital	2,740.44	2,740.44	2,740.44	2,740.44					
7.	Other Equity	20,939.46	19,772.08	17,638.43	19,772.08					
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)									
	1. Basic: (not annualised)	4.26	2.26	0.81	10.12					
	2. Diluted: (not annualised)	4.26	2.26	0.81	10.12					

Date: 28/07/2022

The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.sircapaints.com) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseIndia.com)

For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

Saniay Agarwal **Chairman Cum Managing Director** (DIN: 01302479)

APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 18.04.2022 calling upon the Borrower SEEMA NAGPAL, SWINKY NAGPAL AND SAHIL NAGPAL to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.25,30,673.90 (Rupees Twenty Five Lakhs Thirty Thousand Six Hundred Seventy Three and Paise Ninety Only) against Loan Account No. HHLDMT00280332 as on 12.04.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on  ${\bf 26.07.2022}$ .

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.25,30,673.90 (Rupees Twenty Five Lakhs Thirty Thousand Six Hundred Seventy Three and Paise Ninety Only) as on 12.04.2022 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of  $the \, Act \, in \, respect \, of \, time \, available, to \, redeem \, the \, Secured \, Assets.$ 

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Flat Bearing Number - 0103-0-250301 Area Measuring 1489 Square Feet On The

Third Floor In The Green Escape Group Housing Colony Situated At Jatheri Road, Kundli, Sonepat-131029, Haryana Along With The Freehold Rights Of The Land Under The Above Said Property.

Authorised Office Date: 26.07.2022 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Place: SONIPAT

NOTICE

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CORPORATE BHAWAN, PLOT 4-B, SECTOR 27-B, **MADHYA MARG, CHANDIGARH-160019** 

CP(IB) No. 52/Chd/Hrv/2022

**IN THE MATTER OF** M/s MANGALAM FILING STATION ...Petitioner-Operational Creditor

M/s KOKILA MINING PRIVATE LIMITED ...Respondent-Corporate

SHRI VICKAASH AGARWAL, (DIRECTOR), C-9/1 SECOND FLOOR, ARDEE CITY SECTOR- 52 GURUGRAM GURGAON HARYANA 122001 INDIA SHRI KUSH KUMAR, (DIRECTOR), C-9/1 SECOND FLOOR, ARDEE CITY SECTOR- 52 GURUGRAM GURGAON HARYANA 122001 INDIA.

SHRI SUVENDU NAYAK, (DIRECTOR), C-9/1 SECOND FLOOR, ARDEE CITY SECTOR- 52 GURUGRAM GURGAON HARYANA 122001 INDIA Take notice that the above said CP (IB) No. 52/Chd/Hrv/2022 has been filed

against you by the Piyush Agrawal, Partner of Mangalam Filling Station, pefore The Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh under Section 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 to initiate the CIRP of the Corporate Debtor (Kokila Mining Private Limited). The petition came up for hearing on 25/05/2022 and has been listed for 24/08/2022. with directions to serve you by this substituted service by publication to be present before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh ench at Chandigarh in person or through authorised person or lawyer failing which the matter may be decided in your absence

Sd/ (Mayank Mathur) Dated: 29/07/2022 Advocate Counsel for the petitioner Place: Gurgaon

NOTICE UNDER REGULATION 37A OF IBBI (LIQUIDATION PROCESS). **REGULATIONS, 2016 FOR ASSETS OF** K K MILK FRESH INDIA LIMITED (IN LIQUIDATION)
(CIN: U01403UP2010PLC039300)

[Assignment under Insolvency & Bankruptcy Code, 2016-("IBC")] Offers are invited from Investors for Assignment of Not Readily Realizable Assets ("NRRA") of KK Milk Fresh India Ltd. (In Liquidation), including litigation and consequential rights in avoidance application pending with Hon'ble NCLT, under Regulation 37A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS"

The Details of the Assets offered for Assignment are as under LIST OF NOT READILY REALISABLE ASSETS

Particulars	Underlying Amount (INR)*	Annexure In Process Information Document
Assignment of litigation rights and consequential rights in outcome, for Application for Avoidance of Fraudulent Transactions filed u/s 66 of IBC, 2016 before NCLT Allahabad Bench, in IA No.191/2021 in the matter CP (IB) 128/ALD/2019	Approx. 438 Crores	
Assignment of Rights for pursuing F.I.R. and consequential rights in outcome thereof, in respect of 4 missing Vehicles of Corporate Debtor. Below are the details of Vehicles:		ıv
1. Swift Dzire VDI (DL1CQ2338, Diesel, Model Sep. 2013)		
2. Hyundai Verna (HR51AX5157, Diesel, Model Nov. 2013)		
3. Audi Q5 (HR29AG5859, Diesel, Model June. 2014)		
4. Chevrolet Cruze (HR51AU8558, Diesel Model March. 2013)		
GRAND TOTAL	Approx. 438 Crores	

\*all Taxes Extra, as applicable

Interested parties may submit their offers to the undersigned latest by, 18th August 2022. The assignment will be subject to the Provisions of the IBC 2016 read with Regulations mad thereunder and the process information document.

For further details, please refer to the process information document uploaded on website Chanchal Dua, M - 9958990842 Liquidator- K K MILK FRESH INDIA LIMITED IBBI Reg. No. IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-18/1082 AFA No. AA3/10821/ 02/251122/300489 valid upto 25-11-202 Read, Address & Email ID

5/36, First Floor, Ramesh Nagar, New Delhi – 110015; chanchalduaco@ Correspondence Address & E-mail ID: 409, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001 Iew Delhi Ph: 011-45101111, E Mail: Insolvency@arck.in Date: 28.07.2022 , Place: New Delhi

THE HI-TECH GEARS LIMITED

Regd. Off.: Plot No. 24 - 26, IMT Manesar, Sector-7, Gurugram-122050, Haryan Corp. Off.: 14th Floor, Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27,

ite: www.thehitechgears.com E-mail: secretarial@thehite NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)

ram-122002, Haryana. **Tel.**: + 91(124) 4715100 **Fax:** + 91(124) 2806085

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124 & 125 of the Companies Act, 2013 reac with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time.

The Company is required to transfer the shares in respect of which the Final Dividend declared, for the Financial Year 2014-15, remain unpaid or unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the IEPF Account as notified by the IEPF, Authority.

The Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Account under the said Rules at their latest available address and also uploaded the details of such shareholders on its website i.e. <a href="www.thehitechgears.com">www.thehitechgears.com</a> Shareholders are requested to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Account.

Shareholders may note that in case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by September 30 2022 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the "IEPF Account" by the due date as per procedure stipulated in the Rules or any amendment thereafter and no claim shall however, lie against the Company in respect of the said unclaimed dividends and the shares transferred under the above Rules. The shares, so transferred can only be claimed back from IEPF authority

after following the procedure prescribed under the rules. In case the shareholders have any queries, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. M/s. MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Ph. 011-26387281-83 or send an email at info@masserv.com Members may also write to the Company Secretary at the above

For The Hi-Tech Gears Limited

address/e-mail

Place: Gurugram Date: July 28, 2022

**Company Secretary** 

Naveen Jair



# मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम एवं ओएनजीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी) Corporate Identity Number: L23209KA1988G0I008959

पंजीकृत कार्यालय: मुडपदव, पोस्ट कुत्तेतूर, वाया काटिपल्ला, मंगलूरु - 575030, कर्नाटक E-Mail: investor@mrpl.co.in Website: www.mrpl.co.in



## 34वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों को सूचना

एतद्दवारा नोटिस दी जाती है कि **मंगलुर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों की चौंतीसवीं (34वीं) वार्षिक महासभा ('एजीएम' अथवा सभा'), **सोमवार, 22/08/2022 को शाम 4.00 बजे (IST)**, वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य श्रवण दृश्य माध्यमों ("OAVM") के जरिए ही होगी जिसमें एजीएम की नोटिस में यथा निर्दिष्ट कारोबार किया जाएगा:

कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08/04/2020, 13/04/2020, 05/05/2020, 13/01/2021 और 05/05/2022 के सामान्य परिपत्रों (जिनको सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा जाता है) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') के दिनांक 12/05/2020, 15/01/2021 और 13.05.2022 के परिपत्रों के अनुसार कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ 34वीं एजीएम की नोटिस, 27/07/2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन्हीं सदस्यों को भेजी है जिनके ई-मेल पते कंपनी अथवा रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट ('रजिस्ट्रार') और निक्षेपागारों के साथ पंजीकृत किए गए हैं. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के आधार पर एजीएम की नोटिस की मुद्रित प्रतियां भेजने की पद्धति बंद कर दी गई है. 34वीं एजीएम की नोटिस और व्याख्यात्मक बयान के साथ-साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर और शेयर बाजार अर्थात, www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है. इसकी एक प्रतिलिपि, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड ('NSDL') के वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर भी उपलब्ध है.

#### रिमोट ई-मतदान:

समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 (अधिनियम) का भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य महा सभाओं (SS-2) पर साचिविक मानक एवं SEBI (लिस्टिंग बाध्यता और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 का अनुपालन करते हुए, कंपनी, अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के सिलसिले में एजीएम से पहले / एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान करने की सुविधा दे रहा है और इस प्रयोजन के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए मतदान सुसाध्य बनाने की खातिर NSDL को नियुक्त किया है. रिमोट ई-मतदान करने से संबंधित विस्तृत अनुदेश, 34वीं एजीएम की नोटिस में दिए गए हैं.

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संदर्भ में नीचे उल्लिखित बातें ध्यान में रखें:

- क. रिमोट ई-मतदान सुविधा, शुक्रवार, 19/08/2022, (प्रात: 9.00 बजे, IST) को उपलब्ध होगी जो रिववार, 21/08/2022 (शाम 5 बजे, IST) को बंद होगी.
- उसके बाद NSDL द्वारा रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम किया जाएगा और सदस्य, उक्त दिनांक और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान नहीं कर
- सदस्यों के मतदान अधिकार, **सोमवार, 15/08/2022** ('अंतिम तारीख') को कंपनी की प्रदत्त इक्रिटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे. रिमोट ई-मतदान प्रणाली की सुविधा, बैठक के दौरान भी उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान से अपना मतदान न किया हो वे भी बैठक के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
- वहीं सदस्य, जिसका नाम, अंतिम तारीख को सदस्यों के रजिस्टर/हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, एजीएम से पहले / एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होगा. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले अपना रिमोट ई-मतदान किया हो वे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन उनको दोबारा मतदान करने का हक नहीं होगा.
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे अपना वोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना ईमेल पते दर्ज करने के बाद, कंपनी को investor@mrpl.co.in पर या शेयर ट्रांसफर एजेंट को mrplirc@linkintime.co.in पर निम्नलिखित दस्तावेज भेजकर वोट दे सकते हैं।
  - इंमेल पता दर्ज करने के लिए फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी,, शेयर प्रमाणपत्र (दोनों तरफ), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी) और नवीनतम पते के समर्थन में. स्व-सत्यापित बिजली बिल, आधार/पासपोर्ट प्रति प्रस्तुत करना होगा।
- डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को आपके डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने निक्षेपागार सहभागिता (डीपी) और डीमैट खाते में पंजीकृत ईमेल पते से संपर्क करना चाहिए.
- मूर्त रूप से प्रतिभृतियाँ रखने वाले ऐसे गैर व्यक्तिगत सदस्य अथवा शेयरधारक, जो कंपनी शेयर खरीदते हैं और नोटिस देने के बाद कंपनी के सदस्य बनकर अंतिम तारीख को शेयर रखते हैं, evoting@nsdl.co.in. पर अपनी दरख्वास्त भेजकर ई-मतदान के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के लिए पहले से ही NSDL के पास पंजीकरण कराया हो तो वे, मतदान करने के लिए मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभृतियाँ रखने वाले ऐसे गैर व्यक्तिगत सदस्य, जो कंपनी शेयर खरीदकर नोटिस देने के बाद कंपनी के सदस्य बनकर अंतिम तारीख को शेयर रखते हैं, एजीएम की नोटिस में यथा उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया अपना सकते हैं. सदस्य, ई-मतदान सुविधा पाने के लिए NSDL अथवा केंद्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड ('CDSL') के पास पंजीकृत निक्षेपागार सहभागिता के जरिए रखे गए डीमैट खाते के मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं.
- जो व्यक्ति, अंतिम तारीख को सदस्य न हो वह, यह मान ले कि एजीएम की नोटिस सिर्फ़ सूचनार्थ है.
- मेसर्स पी.एन. पै एण्ड कंपनी के पार्टनर, श्री. नरसिम्हा पै, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है जो एजीएम से पहले / एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान की प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करेंगे.
- अगर रिमोट ई-मतदान को लेकर कोई सवाल/शिकायतें हों तो (एजीएम से पहले/के दौरान) आप, शेयरधारकों के उपयोगार्थ अकसर पूछे गए सवाल और शेयरधारकों के उपयोगार्थ ई-मतदान उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के 'Downloads' खंड में उपलब्ध है अथवा NSDL की टोल फ़्री संख्या 1800 1020 990/1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर दरख्वास्त कर सकते हैं.

निक्षेपागार अर्थातु; NSDL और CDSL के जरिए लॉगिन से संबंधित तकनीकी मुद्दों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिभृतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्प डेस्क:

लॉगिन प्रकार हेल्प डेस्क संबंधी ब्यौरे

NSDL के पास रखे गए शेयर वॉिंगन करते समय कोई तकनीकी मुद्दे हों तो सदस्य, evoting@nsdl.co.in पर दरख्वास्त भेजते हुए NSDL हेल्प डेस्क से

संपर्क करते हैं अथवा टोल फ़्री संख्या: 1800 1020 990 अथवा 1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं.

लॉगिन करते समय कोई तकनीकी मुद्दे हों तो सदस्य, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर दरख्वास्त भेजते हुए CDSL CDSL के पास रखे गए शेयर हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022-23058738 अथवा 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं.

### बही समापन:

दिनांक : 28/07/2022

स्थान : **मंगलूर** 

34वीं एजीएम के प्रयोजन से, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां, शक्रवार 12/08/2022 से 19/08/2022 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगी.

कृते मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

के. बी. श्याम कुमार

कंपनी सचिव

(Figures in Million ₹, unless stated otherwise)



U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.

e-TENDER NOTICE

#### Online e-tenders are invited from Original manufacturers (as per details given in tender documents) for supply of Boiler Chemicals, HDPF/PP Bags 50 Kg (or Conversion basis), Lime (Variable rates of Pet coke basis), Type A Jute bags 50 Kg and also from original manufacturers/Authorized Dealers for supply of Food/ Technical Grade Phosphoric Acid, Caustic Soda Flakes, Process Chemicals to various Sugar Factories of U. P. State Sugar Corporation Ltd. The e-tende documents with detailed specifications, make, terms and conditions, etc., can be

vebsite: www.upsugcorp.in from time to time starting from 30.07.2022. The Managing Director, Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Corporation will be final & binding.

downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in & Sugar Corporation'

MANAGING DIRECTOR

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सीमा नागपाल, स्विकी नागपाल और साहिल नागपाल** को 18.04.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00280332 की राशि रू . 25,30,673.90 (रूपये पच्चीस लाख तीस हजार छह सौ तिहत्तर और नब्बे पैसे मात्र) और 12.04.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 26.07.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 25,30,673.90 (रूपये पच्चीस लाख तीस हजार छह सौ तिहत्तर और नब्बे पैसे मात्र) 12.04.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

. उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण जठेरी रोड पर स्थित द ग्रीन एस्केप ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में तीसरी मंजिल पर फ्लैट बेयरिंग नंबर - 0103-0-250301 माप क्षेत्र 1489 चौरस फीट, साथ ही उपरोक्त संपत्ति के तहत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकार, कुंडली, सोनीपत-131029, हरियाणा

दिनांक : 26.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी

समक्ष राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण पीत-vi नई दिल्ली सीएए (सीए) नं. 183 / एनडी वर्ष 2019 से संबंधित सीएए (92) एनडी / 2021 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के 60 एवं 62 के तहत एक आवेदन के मामले में

एसकेएन हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड गंजीकृत कार्यालय स्थित

12 फॉरेस्ट लेन घिटोर्नी दिल्ली-110030

दिनांकः 10 जलाई, 2022

स्थान : नई दिल्ली

वोपड़ा इलैक्ट्रीकल्स एलएलपी

गंजीकृत कार्यालय स्थित खसरा नं. 319, सिक्व. नं. 91 फॉरेस्ट लेन, सुल्तानपुर, निकट वंध्या फार्म,

नई दिल्ली-110030

एसकेएन सिटी गैस एलएलपी

पंजीकृत कार्यालय स्थित खसरा नं. 319, सिक्व, नं. 91 फॉरेस्ट लेन, सुल्तानपुर, निकट वंध्या फार्म,

नई दिल्ली-110030 याचिकाकर्ता / परिणामी कंपनी नं के साथ व्यवस्था (डिमर्जर) की योजना के मामले में

याचिका की सूचना

एसकेएन हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड अर्थात आवेदक / डि-मर्ज्ड कंपनी क बोपडा इनैक्टीकल्प एनएनपी आवेदक / प्रिणामी एनएनपी नं १ और एसकेएन सिटी ग्रैस एनएनपी आवेदक / परिणामी एलएलपी नं २ के साथ व्यवस्था (डिमर्जर) की योजना के लिए माननीय कंपनी विधि यायाधिकरण, दिल्ली की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232 के साथ पठित धारा 230 के तहत उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई और 18 अप्रैल, 2022 को दाखिल हुई तथा उक्त याचिका 05—7—2022 को माननीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण मुख्य पीठ, दिल्ली के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित थी और अब यह 24.08.2022 को रुधगित हो गई है। यदि कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने का इच्छुक हो तो वह अपनी इच्छा की स्व–हस्ताक्षरित अथवा अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित सूचना अपने नाम एवं पते सहित याचिका र्क सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 5 दिन पूर्व तक याचिकांकर्ता के वकील के पास भेज दें। यदि किसी . व्यक्ति को याचिका से कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति की सूचना के साथ आपत्ति का आधार अथवा इल्फ्रांस की एक पनि संलुख करें। गारिका की पनि कोई भी व्यक्ति आवश्यकता होने पर निर्धारित शुल्क का भूगतान कर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकता है।

आशीष मिडढा एडवोकेत

याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता 1-859 पालम विहार गरूग्राम हरियाणा-0124-2366859 मोबा: 9810057257

... याचिकाकर्ता / डिमर्ज्ड कंपनी

याचिकाकर्ता / परिणामी कंपनी नं

सूचना राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में कॉरपोरेट भवन, प्लॉट 4-बी, सेक्टर 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ-160019

सीपी (आईबी) नं. 52/सीएचडी/एचआरवाई/2022

निम्नलिखित के मामले में मैसर्स मंगलम फीलिंग स्टेशन याचिकाकर्ता-परिचालन ऋणदात वनाम

मैसर्स कोकिला माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड .... प्रतिवादी-निगमित कर्जदार

- श्री विकास अग्रवाल, (निदेशक), सी-9/1 दूसरी मंजिल, अरदी सिटी सेक्टर-52
- गुरुग्राम, गुड़गाँव, हरियाणा 122001, भारत श्री कुश कुमार, (निदेशक), सी-9/1 दूसरी मंजिल, अरदी सिटी सेक्टर-52, गुरुग्राम गुड़गाँव, हरियाणा 122001, भारत
- श्री शुभेंदू नायक, (निदेशक), सी-9/1 दूसरी मंजिल, अरदी सिटी सेक्टर-52 गुरुग्राम, गुड़गाँव, हरियाणा 122001, भारत

ध्यान दें कि मंगलम फीलिंग स्टेशन के साझेदार पीयूष अग्रवाल द्वारा निगमित कर्जदार (कोकिला माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड) की सीआईआरपी प्रारम्भ करने के लिए दिवालिया तथा अशोधन संहिता, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानू न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के समक्ष आपके खिलाफ ऊपर वर्णित सीपी (आईबी) नं. 52 सीएचडी/एचआरवाई/2022 दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के लिए दिनांक 25/ 05/2022 को प्रस्तुत किया गया था तथा चंडीगढ़ स्थित माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप में अथवा अधिकत व्यक्ति अथव अधिवक्ता के जरिए उपस्थित होने के लिए प्रकाशन द्वारा इस वैकल्पिक सेवा द्वारा आपको सेवित करने के निर्देश के साथ इसे दिनांक 24/08/2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में मामले पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है।

(मयंक माथुर)

स्थानः गुड़गाँव

याचिकाकर्ता के सलाहकार

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत)

दिनांक: 29/07/2022

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मोहम्मद ताहिर और शामा** को 24.12.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं.** HHLAGR00483080 की राशि रू. 21.83.201.68 (रूपये दक्कीस लाख तिरासी हजार दो सौ एक **और अड़सठ पैसे मात्र)** और 14.12.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 27.07.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 21.83.201.68 (रूपये दक्की स लाख तिरासी हजार दो सौ एक और अडसठ पैसे मात्र) 14.12.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स राजियंग फाराजाच्या स्विधिरेट के आशीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है

अचल संपत्ति का विवरण

एमएमआईजी मकान नं. 147, भूतल, (नगरपालिका नं. 18बी/147) मापित 120.46 चौ.मीटर्स, शहीद नगर, शमशाबाद रोड हाउसिंग स्कीम, वार्ड ताजगंज, तहसील और जिला आगरा - 282001, उत्तर प्रदेश, और निम्ननुसार परिबध्द

पर्व : एलआईजी भवन पश्चिम : सडक 60 फीट और एग्जिट

उत्तर : सीढियाँ और मकान नं. 145 दक्षिण : मकान नं 149

दिनांक : 27.07.2022

स्थान : आगरा

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

सही/

प्राधिकृत अधिकारी

CIN: L29130HR1986PLC081555 कार्पो. कार्यालय : 14 वां तल, मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27, गुरूग्राम -122002, हरियाणा फोन : + 91(124) 4715100 फैक्स : + 91(124) 2806085

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) खाते में अंतरण यह सूचना एतद्द्वारा कम्पनी के शेयरधारकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एव

125 के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरप और वापसी) नियमावली, 2016, समय समय पर संशोधित, के प्रावधानों के अनुसरण में दी जा जैसाकि आईईपीएफ, प्राधिकरण द्वारा अधिसचित किया गया है, कम्पनी द्वारा उन सभी शेयरो

ग अंतरण, आईईपीएफ खाते में अंतरित करने की अपेक्षा की जाती है, जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2014—15 हेतु घोषित लाभांश का भुगतान सात अथवा लगातार वर्षों से नहीं किया गया है अथवा जिसके लिए शेयरधारकों द्वारा मांग नहीं की गई है। pम्पनी उन संबंधित शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचना

प्रेषित कर चुकी है, जिनके शेयर उक्त नियमावली के तहत आईईपीएफ खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं तथा कम्पनी इन शेयरधारकों का विस्तृत विवरण अपनी वेबसाइट नामत www.thehitechgears.com पर अपलोड भी कर चुकी है। शेयरघारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ खाते खाते में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों तथा मांग नहीं किए गए लागांश विवरण का सत्यापन कर लें।

शेयरधारक नोट करें कि यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से सितम्बर 30, 2022 तक अथवा आगे बढ़ाई गई किसी अन्य तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कम्पनी उक्त नेयमावली में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से, शेयरों का अंतरण नियत तिथि तक आईईपीएफ खाते" में, उक्त नियमावली में अनुबद्ध प्रक्रिया अथवा तदुपरांत किसी संशोधन के अनुसार, कर देगी। तथापि, उक्त मांगे नहीं गएँ लाभांशों तथा उपरोक्तानुसार अंतरित शेयरों के सबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार अंतरित शेयरों की वापसी की मांग आईईपीएफ प्राधिकरण से, उक्त नियमावली के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा की जा सकती है।

यदि शेयरधारकों की उपरोक्त विषय में कोई जिज्ञासा है, वे कृपया कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर टांसफर एजेन्ट नामतः मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड टी-34 दितीय तल ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110020, फोन नंबर 011-26387281-83 से सम्पर्क करें अथवा info@masserv.com पर ई-मेल भेजें। सदस्यगण कम्पनी सेक्रेटरी को भी उपरोक्त पते / ई-मेल पर लिख सकते हैं। वास्ते दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

स्थान : गुरूग्राम तिथि : जुलाई 28, 2022

हस्ता./ कम्पनी सचिव

#### Registered and Corporate Office: Sona Enclave, Village Begumpur Khatola, Sector 35, Gurugram, Haryana – 122004, India **Telephone:** +91 124 476 8200 E-mail: investor@sonacomstar.com, Website: www.sonacomstar.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2022

	Standalone			Consolidated				
Particulars	Quarter ended 30th June 2022	Quarter ended 30th June 2021	Quarter ended 31st March 2022	Year ended 31st March 2022	Quarter ended 30th June 2022	Quarter ended 30th June 2021	Quarter ended 31st March 2022	Year ended 31st March 2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
Income								
Revenue from operations	5,331.97	4,743.35	4,936.57	19,181.17	5,842.51	4,987.93	5,478.69	21,096.78
Foreign exchange gain (net)	53.46	19.54	23.96	209.31	49.73	19.54	21.41	209.62
Other income	6.78	0.45	455.81	509.98	10.21	1.67	143.12	200.26
Total income	5,392.21	4,763.34	5,416.34	19,900.46	5,902.45	5,009.14	5,643.22	21,506.66
Total expenses	4,514.54	3,845.98	4,153.77	15,865.46	4,896.06	4,040.07	4,554.59	17,317.60
Profit/(loss) before exceptional items and tax	877.67	917.36	1,262.57	4,035.01	1,006.39	969.07	1,088.63	4,189.06
Exceptional item	-	(132.70)	-	(132.70)	-	(132.70)	-	(132.70)
Profit before tax	877.67	1,050.06	1,262.57	4,167.71	1,006.39	1,101.77	1,088.63	4,321.76
Total tax expense	221.46	270.55	18.39	632.32	247.98	279.60	42.04	706.33
Profit for the period/year	656.21	779.51	1,244.18	3,535.38	758.41	822.16	1,046.59	3,615.43
Other comprehensive (loss)/ income for the period/year	(78.09)	0.89	(14.08)	(11.52)	(42.17)	21.12	6.34	28.70
Total comprehensive income for the period/year	578.12	780.40	1,230.09	3,523.86	716.24	843.28	1,052.93	3,644.13
Earnings per equity share of face value of ₹ 10 each (not annualised)								
Earnings per share (Basic) (in ₹)	1.12	1.36	2.13	6.08	1.30	1.43	1.79	6.22
Earnings per share (Diluted) (in ₹)	1.12	1.36	2.13	6.08	1.30	1.43	1.79	6.21

**SONA COMSTAR** 

SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

CIN: L27300HR1995PLC083037

### Note:

Date: 28th July, 2022

Place: Gurugram

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the website of the Company, BSE and NSE.
- The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 28th July, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

Managing Director and Group Chief Executive Officer DIN: 07698495 इलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (पूर्ववर्ती काशीराम जैन एंड कंपनी लिमिटेड) कार्यालयः बी-4, भूतल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

सीआईएनः L16000DL1987PLC396234, **फोनः 9871761020, ईमेलः** admin@eliteconinternational.com, वेबसाइटः www.elitec ीय लेखाकरण मानक (इंड–एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए ोटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (पूर्ववर्ती काशीराम जैन एंड कंपनी लिमिटेड) के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण						
•	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त			
विवरण	30.06.2022	तिमाही समाप्त 30.08.2021 (अलेखापरीक्षित) - (6.81) (6.81) (6.81) (6.81) - (0.64)	31.03.2022			
	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)			
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2,007.29	-	1,952.21			
अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों से पूर्व)	58.33	(6.81)	58.19			
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद)	58.33	(6.81)	58.19			
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	40.99	(6.81)	43.41			
अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल]	40.99	(6.81)	43.41			
इक्विटी शेयर पूंजी	121.00	106.00	121.00			
आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	-	-	276.88			
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (रु. 10 /— प्रत्येक) (बंद और चालू प्रचालमों के लिए)						
(ए) बेसिकः	3.39	(0.64)	3.79			
(बी) डायल्यटेडः	3.39	(0.64)	3 79			

स्थानः नई दिल्ली

- उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 27 जुलाई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में रिकॉर्ड पर लिए गए। कंपनी व सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए समाप्त तिमाही के विस्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.eliteconinternational.com पर उपलब्ध है। उपर्युक्त परिणाम कंपनी (मारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 और कंपनी (मारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2016 यथासंशोधित के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (मारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।
- सोशल सिक्यूरिटी कोड, 2020 अधिनियमित होने के कारण परिवर्तन प्रमाव यदि कोई हो, इसकी प्रमावी तिथि और इसके तहत नियमों के अधिसूचित होने के बाद कंपनी द्वार
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त 3 माह के लिए आंकडे पर्ण वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित आंकडों और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त 9 माह के लिए आंकडों के बीग संतलनीय आंकडे हैं। -कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियों के सीएसई से स्वैच्छिक असूचीबद्ध करने हेतु 09 अप्रैल, 2021 को एक आवेदन किया है।
  - पूर्व अवधि से संबंधित आंकड़े को चालू अवधि से तुलनीय करने के लिए पुनर्व्यवस्थित/पुनर्समूहित, जहाँ भी आवश्यक हुआ, किया गया है।
    - इलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड मंडल की ओर से एवं चन्हीं के लिए
      - (विपिन शर्मा प्रबंध निदेश डीआईएनः ०१७३९५१

दिनांकः 28 जुलाई, 2022

Sd/ Vivek Vikram Singh